

STL GLOBAL LIMITED

Plot No. 207-208, Sector-58, Faridabad Haryana (INDIA) Tel: 0129-4275900 - 4275930, Fax: 0129-4275999 E-mail: info@stl-global.com Website: www.stl-global.com CIN: L51909DL1997PLC088667

Date: 08th November, 2023

From: STL Global Limited

Scrip Code: 532730

To
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai 400 001, MH

Sub: Intimation of Newspaper Publication of Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2023

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, please find enclosed herewith copies of newspaper clippings of the advertisement published on the above-mentioned subject matter, in the following newspaper:

Mint – English in all Edition on 08th November, 2023

2. Veer Arjun - Hindi in Delhi Edition on 08th November, 2023

Kindly take the above information on your record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours truly,

For STL GLOBAL LIMITED

Manil Kr. Nagar

Company Secretary

Encl: As above





Mixed bag for Uber as revenue growth slows, profit rises

feedback@livemint.com

growth.

ber Technologies Inc. gave a mixed picture of its business, showing a second consecutive profitable quarter and an increase in demand for rides and delivery but also slowing revenue

The company reported income from operations of \$394 million in the three months ended in September and overall trips growth of 25%. At the same time, revenue was \$9.3 billion, up 11% from a year earlier, but that missed analyst estimates and was the slowest pace of growth in 10 quarters.

Uber's rideshare business continued to expand faster than analysts expected in the third quarter, driven by improvements in driver supply and trip growth from backto-school rides the return of corporate travel. Uber also included new offerings in the past quarter such as partnering with Alphabet

Inc.'s Waymo to provide ridehailing of autonomous vehicles on its app, starting in Phoenix. expected in the Gross bookings third quarter in the mobility, or rideshare, busi-

ness jumped 31%. But growth in the delivery segment was more sluggish, with bookings up 18%, and the freight business continues to struggle, as bookings tumbled 27% in the quarter.

Despite the strength in its rideshare business, Uber said total revenue was affected by "business model changes" beginning in the first quarter in 2020. Overall third-quarter revenue growth was impacted



Uber reported income from operations of \$394 million in the September quarter.

by a reclassification of certain costs, including payments to drivers or couriers and promotions to platform users or its drivers and couriers, which negatively affected revenue by \$521 million in the period.

Chief executive officer Dara Khosrowshahi was optimistic about the results, saving they "demonstrate that Uber continues to drive profitable growth at scale—and why we

believe we're well Uber's rideshare positioned for the business journey ahead, in good or bad continued to macro environexpand faster ments." than analysts The company

> and profit in the last three months of the year that topped analysts' estimates, signalling robust demand for ride-hailing and food delivery

forecast bookings

in the busy holiday period. Total gross bookings, which include rides, delivery and freight, are projected to be \$36.5 billion to \$37.5 billion in the fourth quarter. Adjusted earnings before interest, tax, depreciation and amortization will be another record of \$1.18 billion to \$1.24 billion.

Intel bets on making in India

Digital India, Make in India initiatives driving momentum for domestic tech spending, says MD Viswanathan

Shouvik Das shouvik.das@livemint.com **NEW DELHI**

S-headquartered Intel, one of the world's largest chipmakers for consumer and enterprise markets, is betting on the digital transformation and Make in India initiatives to accelerate growth in India for the long term. In an interview, managing director of Intel India Santhosh Viswanathan said these initiatives are also driving momentum for domestic technology spending.

"If you look at market sentiment in India, there's a lot of momentum on technology and tech spending. The entire conversation around digital foundation is strong, and in the long $run, it\,gives\,us\,good\,appetite\,to\,grow,$ and grow faster in India. Further, initiatives around Make in India and building a resilient supply chain are other factors where we're starting to see a lot of innovations," he added.

Intel's operating revenue for the quarter was down 8% from a year ago



Santhosh Viswanathan, managing director of Intel India

due to conservative tech spending sentiments worldwide, according to its Q2 FY24 earnings results announced on 26 October.

However, Viswanathan said the advent of local brands, driven by optimism in domestic manufacturing and production-linked incentives (PLIs) of the central government, will be a key growth factor. "We are seeing multiple local brands coming up during the festive season sales in India, across categories. At one point, they didn't even exist. This foundation is great, and will hopefully lead to a lot more contributions from India from a technology market perspective. It'll help us grow here."

During the September quarter, the company's consumer and enterprise chip markets contributed over 82% to its overall revenue.

Despite ceding market share to

Advanced Micro Devices (AMD), Intel continued to lead the data centre processors segment with a market share of 70.8%, according to a 27 February report by Counterpoint. This is helping Intel leverage brand partnerships by offering reference designs to the local brands. "Intel's role in local manufacturing in India has many angles: one, the local electronics manufac-

employees in India

focus on R&D

initiatives of Intel

turing push is a key deal, since it will help us build a supply chain here. This is an area where we can accelerate. Intel has been a fundamental building block for many of these products—be it laptops, servers, or any area where computer is used."

"It works exactly the way we work with many ODMs, offering reference design, engineering and other support. This helps us ensure that when we launch something, there's readiness for adoption of products."

Viswanathan said the company has over 14,000 employees in India, who are focused on research and develop-

ment initiatives. However, it would not have a single-lineup focus on creating chips for the nascent generative artificial intelligence market, which has helped rival Nvidia gain significantly in the past one year.

"Our latest global earnings call detailed on how AI is driving interest. Our belief is AI is not a one-engine model-it will be everywhere.

> The building block of our AI push is our Xeon lineup, which can run multiple AI models already. That's the most deployed infrastructure that India has. If you look at LLMs, we have GPUs and accelerators that sup-

port them in the market. We've spoken about Meteor Lake and other recent lineups is to make AI inferencing possible at the edge. This has led to notebooks with dedicated neural processing units. Our concept of AI is not around a single massive structure to support it, and involves multiple edge devices that turn everything into AI engines," Viswanathan said.

Smoke vodka owner NV Group to launch new premium variants

Varuni Khosla

varuni.k@livemint.com **NEW DELHI**

V Distilleries & Breweries Pvt. Ltd, which owns the Smoke brand of vodka, is diversifying into premium gin, and is planning to add premium brown spirits to its Smoke Lab portfolio over the next two years.

Earlier this week, the firm launched the Mohulo sipping gin, primarily targeting export markets. Much like its vodka brand, initially, it will build its global presence with around

2,000 pre-sold nine-litre cases and assess domestic demand with only 10% of its volumes.

"Right now we are primarily focused on the exports market for some of our new premium products. Following the initial response, we'll look at expanding these brands in the Indian market. For instance, Smoke has been very well received internationally because of its local ingredients like pure saffron," chief executive Varun Jain said in an interview.

According to Jain, the company's annual sells for Smoke is about 10,000 cases, including exports. Smoke Lab spent ₹70 crore to develop and produce new brands and products in the last five years, said Jain.

The Rajpura, Punjab-based The firm posted parent, NV Disa turnover of tilleries & Brew-₹1,120 cr for FY23, eries also makes and expects to Blue Moon gin, close this year at the Royal Envy ₹1,250-1,300 cr, whisky and mass with a 10% CAGR whisky under the Party Special brand, as well as

Smoke vodka. It posted a turnover of ₹1.120 crore for FY23. and expects to close this year at

₹1,250-1,300 crore, with a 10% compound annual growth rate (CAGR), said Jain. Most of its revenue is generated from the

commodities segment, and as the company expands its premium spirits portfolio, Jain expects the firm to reduce its reliance on cyclical industries.

The commodity segment com-

prises extra neutral alcohol (ENA: highly purified and neutral spirit derived from grains, sugarcane, or molasses, used to produce alcoholic beverages, including vodka and gin).

Around 95% of its business comes from domestic production and a smaller share from its overseas business, where it primarily retails its vodka. The company expects its Mohulo gin, priced at ₹5000-5500 per bottle.. to contribute to its rev enue stream, Jain said. "We are fully focussed on increasing our overseas business to 8-10% in FY24." he added.

"The Indian alcoholic beverage market has experienced increasing competition in the

premium spirits category in the last two years, especially post-pandemic. This is due to the launch of several new spirits across more expensive and premium categories like rum, whisky and gin. For instance, this year alone nearly half a dozen firms including Radico Khaitan, Stilldistilling Spirits, Spaceman Spirits, and Third Eye Distillery Holdings have launched new brands and variants. This increase in premium categories is being driven by a growing consumer acceptance of Indian brands, due to strong word of mouth promotions.



STL GLOBAL LIMITED CIN: L51909DL1997PLC088667

Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065 Website: www.stl-global.com, Tel: 011-26935829, e-mail: investors@stl-global.cor EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

Particulars	Quarter Ended (30.09.2023)	Half Year Ended (30.09.2022)	Corresponding Quarter ended in the previous year (30.09.2022)
	Unaudited	Unaudited	Unaudited
Total Income from Operations (net)	2,131.16	3,774.81	2,568.99
Net Profit / (Loss) for the period			
(before Tax, Exceptional Items)	(29.79)	(162.50)	22.44
Net Profit / (Loss) for the period			
before Tax (after Exceptional Items)	(29.79)	(162.50)	22.44
Net Profit / (Loss) for the period			
after tax (after Exceptional items)	(32.46)	(167.95)	13.62
Total Comprehensive Income for the			
period (Comprising Profit/(Loss) for			
the period (after tax) and Other			
Comprehensive Income (after tax)	(32.46)	(167.95)	13.62
Equity Share Capital			
(Face Value: Rs. 10/- each)	2,722.18	2,722.18	2,722.18
Reserves (excluding Revaluation			
Reserve) as shown in the Balance			
Sheet of previous year	-	-	-
Earnings Per Share (for continuing			
and discontinued operations)			
Basic:	(0.12)	(0.62)	0.05
Diluted:	(0.12)	(0.62)	0.05

- Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 filed with the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time. The full formats of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 are available on the Company's Website at www.stl-global.com and on the Stock Exchanges websites at BSE at www.bseindia.com and at NSE a www.nseindia.com respectively . The Company business falls within a single business segment in terms of the Indiar
- Accounting Standard- Operating segment during the relevant period, hence no additional disclosures have been furnished. I. There were no exceptional and extraordinary items during the quarter and half year
- ended 30th September, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors o STL Global Limite

Place : Faridahac

Sanjiv Kumar Agarwal Whole Time Director DIN: 00227251

OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED Neelam & Heera asset, Mumbai 3rd Floor, Vasudhara Bhawan, Bandra (E) oñêc Mumbai - 400051. Phone: 022-2226562316; Email: singh_vikash@ongc.co.in

NOTICE FOR INVITING EXPRESSION OF INTEREST

No.: ONGC/ MUM/ N&H / ST/ EOI/ 2023

General Manager (Production), ONGC, 3rd Floor, Vasudhara Bhawan, Bandra (E), Mumbai - 400051 invites Expression of Interest as per the details given below:

Brief Description

Inviting Expression of Interest (EOI) for integrated asset digital modelling of Neelam & Heera asset

Last Date of Submission 27.11.2023

Please login to our website https://tenders.ongc.co.in for details of Expression of Interest and downloading of brief scope of work.



ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED

CIN: L24230GJ2010PLC061123 Regd. Office: Alembic Road, Vadodara - 390 003

Extract of Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2023


•		• '			
(₹ in Crores except per share data)					
	Quarter	Year Ended			
Particulars	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023		
	Unaudited	Unaudited	Audited		
Total Income from Operations	1,594.93	1,475.01	5,652.62		
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	134.64	151.31	354.59		
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	134.64	151.31	354.59		
Net Profit for the period after tax attributable to shareholders of the company (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	136.56	133.35	341.99		
Total Comprehensive Income for the period	137.12	139.57	355.36		
Equity Share Capital	39.31	39.31	39.31		
Earning Per Share (Face Value of ₹ 2/- each) Basic & Diluted	6.95	6.78	17.40		
Research and Development Expenses	121.13	167.65	721.84		
Notes:					

Standalone details	Quarte	Year Ended	
	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	Unaudited	Unaudited	Audited
ncome from Operations	1,478.84	1,354.42	5,149.00
Profit Before Tax	133.84	167.00	345.93
Profit After Tax	133.84	146.44	346.73
Research and Development Expenses	120.70	162.06	699.39

2. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges. The detailed Financial Results are available on the Company's website at www.alembicpharmaceuticals.com and the Stock Exchange's website at www.nseindia.com and

Date: 7th November, 2023

Chirayu Amin Chairman and CEO







Data rich, visual reporting with **Mint Plain Facts**

Read only on **mint**


केरल सरकार मुझे अंधेरे में रख रही : राज्यपाल

तिरुवनंतपुरम, (भाषा)। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार विधायिका का इस्तेमाल उसके निर्धारित कार्यों से इतर अन्य उद्देश्यों के लिए कर रही है और उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अंधेरे में रख रही है।

उच्चतम न्यायालय ने हाल में टिप्पणी की थी कि राज्य सरकार और राज्यपाल को समन्वय से काम करना चाहिए। इस बारे में संवाददाताओं द्वारा पूछे जाने पर खान ने टिप्पणी की निश्चित तौर पर उन्हें करना चाहिए।

उन्होंने साथ ही सवाल किया कि तब क्या किया जाए जब उन्हें अंधेरे में रखा जाता है या जब विधायिका का इस्तेमाल उसके लिए निर्धारित कार्यों से इतर उद्देश्य के लिए किया जाता है।

राज्यपाल ने कहा, जब आप शुरुआत से ही विधायिका का इस्तेमाल उसके तय कार्यों से इतर उद्देश्य के लिए करने लगें, आप राज्यपाल को अंधेरे में रखें. आप





तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। (छाया : एएनआई)

अपने न्यायाधिकार क्षेत्र से परे के कानून पारित करें। तब क्या किया जाए? जब आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे मामले में अपनी सहमति दूं जो निश्चित तौर पर उसके न्यायाधिकार से बाहर का है, तब क्या किया जाए?

खान ने कहा कि उच्चतम

उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला करेगा उसको लागू करना हम सभी का कर्तव्य है। कुछ विधेयकों को रोके जाने के मुद्दे पर खान ने कहा, नैसर्गिक है, कोई भी कुछ ऐसा करने को नहीं कहेगा जो कानून का उल्लंघन करता है। मैंने बार-बार यह कहा है। खान ने कहा कि लोकायुक्त

टिप्पणी का सवाल नहीं है।

विधेयक में आप स्वयं अपने न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा. आप स्वयं के बारे में निर्णय लेने की इच्छा करके न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय से जुड़े विधेयकों पर खान ने सवाल उठाते हुए कहा कि विधेयक में जिन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की बात कही गई है, उनके द्वारा किए जाने वाले खर्च को कौन वहन करेगा, इससे संबंधित प्रावधान मामला दूसरा है। यहां फैसले पर कहां हैं?

भारत में कोरोना के पांच नए मामले सामने आए

नई दिल्ली, (विप्र)। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के पांच नए मामले सामने आए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 180 दर्ज की गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सबह आठ बजे तक अद्यतन आंकडों के अनुसार, मृतकों की संख्या 5,33,294 दर्ज की गयी है। देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4.50 करोड़ (4,50,01,397) है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढकर 4,44,67,923 हो गयी है तथा स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.81 प्रतिशत है। कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत टीकों की 220.67 करोड़ खुराक दी जा

उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों को मुफ्त राशन देने में किया वीर अर्जुन संवाददाता मोदी ने कहा, जब कांग्रेस 10 सीधी (मप्र)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र वर्षों (2004-2014) तक सत्ता में मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर थी, तो उसकी सरकार भ्रष्टाचार में

अपने शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने सभी घोटालों को रोक दिया और इसमें शामिल धन को बचाया और इससे 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने में मदद मिली। मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस उन्हें हर दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। गाली देती रहती है। उन्होंने कांग्रेस प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पर आदिवासी विरोधी मानसिकतौ प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना होने का आरोप लगाते हुए कहा कि

उम्मीदवारी का विरोध किया। वह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे।

लिप्त थी, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद, उसने उन सभी घोटालों को रोक दिया और बहत सारा पैसा बचाया एवं इसका उपयोग कोविड-19 के अवधि के दौरान 80 करोड से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन योजना को अब दिसंबर से आगे अगले पांच साल

केंद्र ने कांग्रेस के घोटालों को रोका: मोदी

के तहत बिना किसी लीकेज के किसानों के बैंक खातों में 2.07 लाख करोड रुपये जमा किए गए और यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि भ्रष्टाचार रुका।

कांग्रेस पर आदिवासियों को ैवोट बैंकै के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा

नई दिल्ली, (वीअ)। लोकसभा

पूर्व आईएएस अधिकारी

का आरोप : अंधेरे में रखा गया

कि जब भाजपा ने देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया क्योंकि उसने कभी भी उनके कल्याण की परवाह नहीं की।

उन्होंने कहा,ै दलित वर्ग से आने वाले देश के पहले मुख्य सुचना आयुक्त (सीआईसी) के सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहले से निमंत्रण मिलने के बावजूद कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। यह उसकी दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पूर्व आईएएस अधिकारी हीरालाल सामरिया ने सोमवार को मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली। मोदी ने एशिया में सबसे बडा माने जाने वाले रीवा अल्टा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का उदाहरण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार विंध्य क्षेत्र को एक प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित कर रही है।

सुनिश्चित करने के लिए हर संभव

उपाय करने का आग्रह करूंगा कि

विपक्ष को उसका उचित और वैध

स्थान न देकर हमारी लोकतांत्रिक

परंपराएं और लोकाचार को

कमजोर करने के प्रयास पर अंकुश

लगाया जाए तथा विपक्ष को सुना

समिति के अध्यक्ष ने कहा कि चयन

समिति का सदस्य होने के बावजूद

उन्हें सीआईसी एवं सूचना आयुक्तों

के चयन के बारे में पूरी तरह से

अंधेरे में रखा गया । उनका कहना

है कि यह बैठक प्रधानमंत्री के

आवास पर तीन नवंबर को शाम

छह बजे हुई थी। चौधरी के

अनुसार, तथ्य यह है कि बैठक में

संसद की लोक लेखा

कुपवाड़ा में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण

कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को यहां क्पवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की इस प्रतिमा को उत्तरी कश्मीर जिले में सेना की 41 राष्ट्रीय राइफल्स मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर एक पुजारी द्वारा विशेष पूजा भी की गई। यह जिला पाकिस्तान से लगा है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रतिमा हमेशा बहादुर सुरक्षा बलों को प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर के संबंध बहुत पुराने हैं तथा संबंधों को और मजबूत किए जाने की जरूरत है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि यह एक एतिहासिक पहल है और उन्होंने आम्ही पुणेकर एवं भारतीय सेना की 41 राष्ट्रीय राइफल्स को इस मौके पर

(एएमयू) के कुलपति पद पर

नियुक्ति के लिये तीन नाम तय करने

के मकसद से बुलायी गयी एएमयू

कोर्ट की बैठक में हिस्सा लेने वाले

84 में से आठ सदस्यों ने

कार्यवाहक कलपति प्रोफेसर

मुहम्मद गुलरेज के, अपनी पत्नी के

कुलपति पद के लिए दावेदार होने

के बावजद इस बैठक की अध्यक्षता

करने पर सख्त एतराज जताया है।

कलपति पद के लिये पांच में से तीन

नामों का पैनत तय करने के लिये

हुई बैठक में, कार्यवाहक कुलपति

मुहम्मद गुलरेज की पत्नी और

एएमयू महिला कॉलेज की प्राचार्या

नईमा खातून को बैठक में शामिल

50 सदस्यों ने वोट दिया। तय किये

गये पैनल में शामिल दो अन्य

दावेदारों एम. उरूज रब्बानी (एएमय

के मेडिसिन संकाय के पूर्व डीन) को

एएमय कोर्ट की सोमवार को

शभकामनाएं दी। सिन्हा ने जोर देते हए कहा कि महान शिवाजी की यह प्रतिमा लोगों और सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी।

सिन्हा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, महान योद्धा और स्वराज के संस्थापक शिवाजी नैतिकता के उच्च मूल्यों और अच्छे आचरण के प्रतीक होने के साथ-साथ सभी धर्मों व संप्रदाय का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। बचपन से ही प्रतिभा के धनी शिवाजी ने शत्रुओं के खिलाफ अपनी यादगार जीतों से भारत के नए इतिहास की इबारत लिखी।

उपराज्यपाल ने कहा, अपने सैन्य कौशल और नैतिक बल के जरिए शिवाजी ने लाखों भारतीयों को संगठित किया और मराठा साम्राज्य के लिए संप्रभुता हासिल की। उनके सार्वभौमिक और शाश्वत मुल्य आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सामाजिक समानता व शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

एएमयू कोर्ट के आठ सदस्यों ने कार्यवाहक कुलपति

के बैठक की अध्यक्षता करने पर जताया सख्त एतराज

कुलपति) को 53 वोट मिले।

अलीगढ़ (उप्र), (वीअ)। न्यायविद और नेशनल लॉ अली, सहैल अहमद नियाजी और

इस विशेष बैठक के फौरन

बाद एएमयू कोर्ट के 84 सदस्यों में

से आठ ने इस निर्णय की वैधता

और नैतिकता पर सवाल उठाते

हए बहुत तल्ख टिप्पणी की थी।

इस असहमित नोट पर हस्ताक्षर

करने वाले एएमयू कोर्ट के आठ

सदस्यों में से दो एएमय के वरिष्ठ

संकाय सदस्य हैं। इनमें रणनीतिक

अध्ययन विभाग के अध्यक्ष

प्रोफेसर आफताब आलम और

एएमयु के जाकिर हसैन कॉलेज

ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी

के प्राचार्य प्रोफेसर सुफयान बेग

करने वाले छह अन्य सदस्यों में

सेवानिवृत्त प्रोफेसर हाफजि

इलियास खान और निर्वाचित

सदस्य खुर्शीद खान, सैयद नदीम

असहमति के नोट पर हस्ताक्षर

शामिल हैं।

बालोद, (भाषा)। कांग्रेस नेता कांग्रेस की सरकार ने पांच वर्ष में जनता के हित के लिए काम किया,

गांधी ने छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक चुनावी सभा में भाजपा

केंद्र के पास हवाई जहाज, नए संसद भवन के लिए पैसा है लेकिन किसानों के लिए नहीं है: प्रियंका गांधी

लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया।

मोदी सरकार में मोदी जी के लिए

आठ हजार करोड़ रुपए मुल्य के दो

जहाज खरीदे गए, जिसमें वह घूम

सकें..20 हजार करोड रुपए खर्च

कर नया संसद भवन बनाया गया।

जब इसकी घोषणा हुई तब मैं उत्तर

प्रदेश में थी और वहां के गन्ना

किसान अपना बकाया पैसा मांगने

के लिए सडक पर थे। मोदी सरकार

सौदर्यीकरण के लिए 20 हजार

करोड़ रुपए खर्च करेगी लेकिन

किसानों को देने के लिए उसके पास

जनगणना की वकालत की और

कहा इससे यह पता लग सकेगा कि

ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं,

आदिवासी भाई बहन कितने हैं,

गरीब भाई बहन कितने हैं, क्योंकि

जब गिनती नहीं होगी तब सही

तरीके से न प्रतिनिधित्व होगा. न

नीतियां बन पाएंगी। गांधी ने कहा,

मोदी जी को आपने देखा होगा कि

वह खुद को ओबीसी कहते हैं

लेकिन जब जातिगत जनगणना की

बात हो रही है तब वह कह रहे हैं

उन्होंने जातिगत

पैसे नहीं हैं।

गांधी ने कहा . ..भाजपा की

प्रियंका गांधी वाड़ा ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसके पास प्रधानमंत्री के लिए हवाई जहाज लेने और संसद भवन बनाने के लिए पैसा है लेकिन किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है।

न्यायालय ने जो कहा है उसका

सभी को सम्मान करना चाहिए और

उसका अनुपालन करना चाहिए

लेकिन यह फैसले के रूप में होना

चाहिए। उन्होंने कहा, मैं उनके

द्वारा कहे गए कुछ कथनों पर

टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि

पर आरोप लगाया कि देश की जनता ने जो कुछ अच्छा बनाया था, उसे उसने बिगाड दिया या अपने उद्योगपित मित्रों को दे दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, सरकार का जो पैसा होता है, वह सरकार का नहीं, बल्कि जनता का पैसा होता है। इसका अहसास आपको होना चाहिए। जब सरकार इसे खर्च करती है, तब पूछा जाना चाहिए कि किस काम के लिए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ में बौखला गए हैं और कहने लगे हैं कि कछ भी हो जाए यह नहीं करना है। क्योंकि वह (भाजपा) जो घोषणाएं करती है, बातें करती है वह खोखली होती है। वह आपके लिए काम नहीं करना चाहती है। उन्होंने इन्होंने जो कहा था वह कभी किया नहीं। न ही रोजगार दिलाया और न ही किसानों की आय दोगुनी हुई। किसान आज रो रहा है। जहां से रोजगार मिलता था, उसे खत्म कर दिया। छोटे काम धंधे, छोटे उद्योग उद्योगपित जो देश के इंजन थे जिससे रोजगार मिलता था, उन्हें नोटबंदी और जीएसटी

लागू करके समाप्त कर दिया। गांधी ने कहा कि भाजपा ने यह कहकर उसे भी बिगाड़ दिया कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिसे जनता ने बनाया था, उसने उसे बिगाड दिया या तो अपने उद्योगपित मित्रों को दे दिया। कांग्रेस नेता ने राज्य में रमन सिंह के नेतृत्व में रही भाजपा सरकार (2003-2008) की आलोचना की और कहा कि राज्य की भाजपा सरकार को हिंसा, कुशासन और गरीबी के

Before Debts Recovery Tribunal-II, Delhi 4th Floor, Jeevan Tara Building 3 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule) 1993)

ammu & Kashmir Bank Ltd.Applicar

Ruby Kumari Sinha & Ors

Ruby Kumari Sinha W/o Manish Kumar R/o House No. 1 arsh Vihar Colony Kola Kushma Road Sarai Dhela Dhan harkhand - 828127, 2. M/s Unibera Developers Pvt. Ltd. A 1a 2nd Floor Sect.- 58 Noida UP. 3, M/s Solari aprojects Pvt Ltd 102-105 II^{ad} Floor J S Arcade Sect-- 1

Thereas the above named applicant (s) has/have instituted akh Two Thousand Five Hundred Eighty Only) against y nd where as it has been shown to the satisfaction of the Tribun nat it is not possible to serve you in the ordinary way therefore, its notice is given by advertisement directing you to make oppearance in the Tribunal on 22.01.2024 At 10.30 A.M. Take ice that in default of your appearance on the day before the ioned, the case will be heard and determined in y

All the matters will be taken up through video Conference nd for that purpose:- (i) All the Advocates/Litigants sha lownload the "Cisco Webex" application/software: (i Meeting ID" and Password for the date of hearing qua cases taken by Hon'ble Presiding Officer/Registrar shall I played in the daily cause list itself at DRT Official Portal i. rt.gov.in (iii) In any exigency qua that the Advocate/Litigan contact the concerned official at Ph. No. 23748478 iven under my hand and seal of the Tribunal this the 04th da of Oct., 2023.

By order of the Tribun

Assistant Registrar, DRT-II, Delhi. ऋण बसूली न्यायाधिकरण-॥, दिल्ली के समक्ष चतुर्य तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

क तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूर विनियम, 1993 की घारा 19(4) के साथ पठित ऋण सली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) टी एसं. 999/2022 तिथि: 12-10-2023

पंजाब नेशनल बैंक मैसर्स जस्ट मशीन ट्रल्स एवं अन्य ...प्रतिवादीग वा में, प्रतिवादीगण

. मेसर्स जस्ट मशीन दुल्स, 8/34, कीर्ति नग श्री जतिंदर पाल सिंह पुत्र श्री जगदेव सिंह 8/34, कीर्ति नगर इंडिस्ट्रियल, एरिया न दिल्ली–15 अन्य पताः 806 कीर्ति शिखर टाव जनकपुरी नई दिल्ली—58 बिक उपरोक्त नामक आवेदक (कों) ने आपके विरु

. 31,70,618.07 / - (रुपए इसतीस लाख सत्त सौ अट्ठारह तथा पैसे सात मात्र) व सूली के लिए एक वाद स्थापित किया है तथा जर्बा धिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया का है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जा मव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना व्यम से आपको दिनांक 05-12-2023 को पुर का निर्देश दिया जाता है।

ान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इ नवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिथति में कि

समी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु :-सभी अधिवक्ता/विवादी "Cisco Webex रीकेशन / सॉफटवेयर डाउनलोड करेंगे

(ii) माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्टार हा में की सुनवाई की अगली तिथि हेतु "Meeting ID ाथा "Password" अगली तारीख से एक दिन पह nरटी के आधिकारिक पोर्टल नामतः "drt.gov.in र सार्वजनिक सुचना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध होग (iii) किसी कार्याधिक्य की स्थिति में, अधिवक्ता ादी संबंधित पदाधिकारी से फोन नंबर 2374847 सम्पर्क कर सकते हैं।

ह हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तह 12 अक्टूबर, 2023 को दिया गया। न्यायाधिकरण के आदेश द्वार

सीआईसी के चयन पर अधीर रंजन अदालत ने दापोड़ी रिसॉर्ट को गिराने पर रोक लगाने का आदेश रह किया

उसने देश की पहली आदिवासी

महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की

मुंबई, (भाषा)। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की एक अदालत ने में कांग्रेस के नेता और मख्य सचना शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे आयुक्त (सीआईसी) की नियुक्ति (युबीटी) के नेता अनिल परब के से संबंधित चयन समिति के सदस्य निकट सहयोगी सदानंद कदम के अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मालिकाना हक वाले दापोडी स्थित द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा है साई रिसॉर्ट को ढहाने पर रोक लगाने कि सीआईसी के चयन की प्रक्रिया का आदेश खारिज कर दिया है। को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा गया। रत्नागिरी के खेड में जिला अदालत ने उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि चार नवंबर को पारित आदेश में कहा सीआईसी की नियुक्ति में सभी कि यह सिर्फ निर्माण कानूनों के लोकतांत्रिक मानदंडों, परंपराओं उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि और प्रक्रियाओं की धज्जियां उडा वादी (कदम) ने तटीय विनियमन क्षेत्र दी गईं। पत्र में चौधरी ने कहा कि (सीआरजेड) नियमों और विनियमों विपक्ष की आवाज को अनदेखा के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया किया गया है और यह लोकतंत्र के है। उसने कहा कि यदि ऐसी संरचना लिए अच्छा नहीं है। के निर्माण को संरक्षण दिया जाता है, तो यह अदालत द्वारा अवैध कार्य हीरालाल सामरिया को सोमवार को करने के बराबर होगा। कदम ने परब से भूखंड खरीदा था और रिसॉर्ट का निर्माण कराया था। रत्नागिरी के जिलाधिकारी ने जून 2021 में इसे गिराने का नोटिस जारी किया गया था क्योंकि रिसॉर्ट के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियां नहीं ली गई

राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक तीन नवंबर को सुबह बुलाने का आग्रह किया था लेकिन इसे प्रधानमंत्री की थीं। बाद में कदम ने रत्नागिरी के सह्लियत के मुताबिक उस दिन खेड में एक दीवानी अदालत में इस शाम छह बजे ही बलाया गया। नोटिस के खिलाफ मुकदमा दायर

किया था, जिसने मार्च 2023 में पत्र में उन्होंने कहा, ैसंपूर्ण रिसॉर्ट को गिराने पर रोक लगाने का चयन प्रक्रिया से संबंधित उपरोक्त आदेश दिया था। तथ्यों को देखते हुए मैं आपसे यह

evi and her husband Sh. Viiender Singh both H. No 90, Gali No. 10, Shiv Kunj, Sant Nagar, Burari, Delhi nave severed all their relations and ties from their so Makhan Singh and his wife Pooja due to the sobeying, misbehaving, abusing, threatening by Poo implicate in false cases to my above named clie mipricate in faise cases to my above named chem y clients have disowned and debarred them from the tire movable and immovable properties and anyon ealing with said person in future in any manner sh so at their own risk and consequences and my client hall not be responsible for any acts and deeds done b

id son and daughter-in-law in fu saru son and daugnter-in-law in future.

Rajesh Kumar, Advocate, Seat No. 67, P.S. Ratl
Block, Tis Hazari Courts, Delhi. It is brought to the notice of public at large that my client Smt. Chander Vati W/o Lt. Sh. Rotash, R/o 53, Mashi Garh, Jamia Nagar Okhla, South Delhi, New Delhi-110025 ha mt. Kavita and their 4 children namely Nitin ritik. Monu and Nisha and her younger so amely Sh. Lalit his wife Smt. Babita and thei aughter namely Pranshi from all her movable

responsible 10.
il/criminal) done by them.
Maneesh Lal (Advocate Ch.No. 552, 5th Floor, Saket District Court New Delhi-110017, 837688607

and immovable properties. My client shall no

responsible for any acts/deed:



STL GLOBAL LIMITED CIN: L51909DL1997PLC088667

Regd. Office: Unit No. 111, Block No. 1, First Floor, Tribhuwan Complex, Ishwar Nagar, New Delhi-110065

Website: www.stl-global.com, Tel: 011-26935829, e-mail: investors@stl-global.com EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

			(Rs. in Lakhs
Particulars	Quarter Ended (30.09.2023) Unaudited	Half Year Ended (30.09.2022) Unaudited	Corresponding Quarter ended in the previous year (30.09.2022) Unaudited
Total Income from Operations (net)	2,131.16	3,774.81	2,568.99
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	(29.79)	(162.50)	22.44
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	(29.79)	(162.50)	22.44
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(32.46)	(167.95)	13.62
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(32.46)	(167.95)	13.62
Equity Share Capital (Face Value: Rs. 10/- each)	2,722.18	2,722.18	2,722.18
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of previous year	-	-	-
Earnings Per Share (for continuing			
and discontinued operations) Basic:	(0.12)	(0.62)	0.05
Diluted:	(0.12)	(0.62)	0.05
Dilutou.	(0.12)	(0.02)	0.00

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results fo the quarter and half year ended 30th September, 2023 filed with the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time. The full formats of the Unaudited Financial Results for the guarter and half year ended 30th September, 2023 are available on the Company's Website at www.stl-global.com and on the Stock Exchanges websites at BSE at www.bseindia.com and at NSE at www.nseindia.com respectively.

2. The Company business falls within a single business segment in terms of the Indian Accounting Standard- Operating segment during the relevant period, hence no additional disclosures have been furnished.

There were no exceptional and extraordinary items during the quarter and half yea ended 30th September, 2023. For and on behalf of the Board of Directors of

Place : Faridahad

Sanjiv Kumar Agarwa Whole Time Directo DIN: 00227251 केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपस्थित थे और विपक्ष का चेहरा यानी चयन समिति के एक प्रामाणिक सदस्य के रूप में मैं उपस्थित नहीं था। बैठक के कुछ घंटों के भीतर चयनित उम्मीदवारों

पूर्वोत्तर रेलवे निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना संख्या 07-TMC-

के नामों की घोषणा की गई।

BCM-OS-2023-24 दिनांक 06.11.2023 युख्य इन्जी./टीएमसी.,पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपु ारत के राष्ट्रपति की और से निम्नलिखित का हेत ई-निविदा आमंत्रित करते हैं:- **कार्य का ना**ग त्तर रेलवे के बीजी रूटों के सभी प्रकार के मेन के डीप स्कीनिंग के कार्य का सर्विस के स्व . जाधार पर सर्विस देने वाले अपने बीसीएम तः हायक मशीनों उनके कल पूजों कन्जयबल औ ाफ इत्यादि सहित इन्सीडेटल साइट पर का की सर्विस प्रदान करना। स्कोप आफ सर्विस वे न्तर्गत रेलवे तथा सर्विस प्रदाता के बीच में किर प्रकार के सामाग्री का आदान-प्रदान नहीं होग खुली निविदा संख्या तथा खुलने की तिथि: 07 TMC-BCM-OS-2023-24 खुलने की तिथि 08.12.2023, **संक्षिप्त विवरणः** शेड्यूल-संलग्न टेन्डर डाक्यूमेंट के अनुसार), **आवश्य** मात्राः संलग्न टेन्डर डाक्यूमेंट के शिडयूल वे ानुसार, **कार्यस्थलः** एन इ आर में कार्य करन कार्य समापन अवधिः 180 माह, अनमानिः निविदा मूल्य (₹): ₹ 260,10,32,646.08 बयाना राशि (₹): 1,00,00,000.00, नोट: (1 ारोक्त ई-प्रोक्योरमेंट खुली निविदा से सम्बन्धि म्पूर्ण सूचना एवं निविदा प्रपत्र वेबसाड https://ireps.gov.in/ पर निविदा बन्द होन तिथि को 15:00 बजे तक रहेगी। (2) उपरोव सभी निविदाओं में ई-बिड के अलावा किसी अन ल्प में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोज हेत वेन्डरों को चाहिये की अपना I.T Act-2000 अन्तर्गत CCA द्वारा जारी Class-II डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ IREPS वं तेत्रसाईट पर पंजीकत कराये। (3) टर ठाइनेन्शियल दर के पेज पर डिजिटल हस्ताक्षर व साथ ही विचार किया जायेगा। इससे इतर, वेन्डर द्वारा अन्य वित्तीय इन्ट्री किसी अन्य रूप/लेटर हे साथ संलग्न करने पर विचार नहीं किय जायेगा। (4) संलग्न किये जा रहे प्रपत्र प निविदाकर्ता का हस्ताक्षर आवश्यक है। (5) बया राशि ऑनलाईन जमा किया जायेगा। (6) उ नेविदाकार अपना आफर देते समय ऐसी शर्ते ज टेण्डर डाक्यूमेन्ट में निहित शर्तों से अलग हो ए ानका फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन बनता हे यदि देना चाहें तो, उन शतों का फाइनेन्शि इम्पलीकेशन बताना होगा, इसके लिये प्रमाणि दस्तावेज के साथ गणना शीट अपने आफर साथ संलग्न करना होगा ताकि उस दशा ठाइनेन्शियल शर्त का प्रभाव निकाल क नेविदाओं को इन्टर-से-पोजिशन ज्ञात किया उ सके। यदि कोई निविदाकार बिना फाइनेन्शि म्पलीकेशन की गणना शीट दिये बिना ऐसी श देता है तो. ऐसे आफर/निविदा को Summar Reject कर दिया जायेगा, जिसके लिये रेल ग्शासन कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं करेगा। (7 नविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि पूरी निविदा प्रपः को सावधानी पूर्वक पढ़े। (8) यदि कोई कठिना भाती है तो हेल्प डेस्क IREPS की वेबसाईट प ालब्ध है जिससे सम्पर्क किया जा सकता है। . उप मुख्य इन्जी_•/टीएमसी-9794840218 . सीसेई/(टीएमसी)-9794840293 सहा.अधि.अभि./टीएमसी-

मुजाधि/डब्ल्यू-402 'ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें'

वैधानिक सचनाः पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन प

प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन मे प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-पडताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वार किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि य समर्थन नहीं करता। समाचार पः उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

61 और फैजान मुस्तफा (प्रसिद्ध अहमद, सैयद मोहम्मद अहमद ओबीसी नेताओं ने मराठा समुदाय को निशाना बनाया : जरांगे

छत्रपति संभाजीनगर, (भाषा)। पिछले सप्ताह हिंसा में निशाना कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) के नेता मराठा समुदाय के लोगों के खिलाफ झुठे मामले दर्ज कराकर उन्हें निशाना बना रहे हैं और मराठा नेताओं को समुदाय के युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के नेता छगन भुजबल ने सोमवार को कहा था कि ओबीसी वर्ग के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए पिछले दरवाजे से किए जा रहे प्रयास का विरोध किया जाएगा। उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान बीड के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच कराने की मांग की।

भुजबल बीड जिले में राकांपा विधायकों प्रकाश सोलंके और संदीप क्षीरसागर के घर गए, जिन्हें

बनाया गया था। जरांगे ने भजबल के इस बयान के एक दिन बाद मंगलवार को दावा किया कि मंत्री ने मराठा समुदाय को निशाना बनाने के लिए बीड का दौरा किया। उन्होंने कहा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे मराठा लोगों पर मामले दर्ज किये जा रहे हैं। राज्य के मराठा नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए और युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। यदि आप आज उनके साथ खड़े नहीं हुए तो कल वे आपको माफ नहीं करेंगे।

कार्यकर्ता ने कहा, इस हिंसा से मराठा समुदाय का कोई लेना-देना नहीं है। यह समुदाय के साथ खड़े होने का उचित समय हैं। हमें गांवों में आपके प्रवेश पर रोक लगाने के लिए मजबूर न करें। जरांगे ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण

की मांग कर रहे हैं।

अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय युनिवर्सिटी, नलसर के पूर्व एम. सुहैंब शामिल है। प्रोफेसर आफताब आलम ने पीटीआई-भाषा से कहा, कार्यवाहक कुलपति ने उस बैठक की अध्यक्षता की और वोट भी किया जिसमें उनकी पत्नी कुलपति पद के दावेदारों में शामिल हैं। उनका यह आचरण नैतिकता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन तो है ही, यह हितों के टकराव के साथसाथ केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 की अवहेलना भी है। प्रो आलम ने कहा, ैयह आश्चर्य की बात है कि पिछली 30 नवंबर को हुई एएमयू कार्यकारी परिषद की बैठक में प्रोफेसर गुलरेज ने खुद के बैठक की अध्यक्षता करने को लेकर दो सदस्यों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों को न सिर्फ नजरअंदाज कर दिया, बल्कि उन्होंने खुद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन करते हुए अपने पक्ष में

पुलवामा के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित

फैसला सुनाया था।

श्रीनगर, (भाषा)। जम्म्-कश्मीर के पलवामा जिले के कुछ हिस्सों में सुरक्षा कारणों से मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के वामपुरा और हनीपुरा इलाकों में मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित करने के निर्देश कश्मीर क्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) विजय कुमार की ओर से जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि एडीजीपी के आदेश में राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा मोबाइल डेटा सेवाओं के दुरुपयोग की संभावना का उल्लेख किया गया है, जिससे लोक व्यवस्था बिगड सकती है। अधिकारियों ने बताया कि दुरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन क्षेत्रों के तीन किमी के दायरे में 5 नवंबर की शाम 7 बजे से 8 नवंबर शाम 7 बजे तक

मोबाइल डेटा निलंबित करने का निर्देश दिया गया है।

उप्र: बलात्कार के दोषी को हुई उम्रकैद

बलिया (उप्र), (भाषा)। बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के पांच साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने मंगलवार को बताया कि रसडा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को रसडा कस्बे के महावीर अखाडा के रहने वाले पंकज कुमार ने गत 10 दिसंबर 2018 को अगवा कर बलात्कार किया था।

वीर 🕲 अज्ञेन वर्गीकृत विज्ञापन

Change of Name I, Sitender Jain S/o Parkash Chand R/o B-32, B Block Krishna Nagar, Shahdara, Delhi-110051 that I have changed my name from Sitender Jain to Sitender

Kumar Jain for all future C-32918

IN THE COURT OF SH. BHUPESH KUMAR (COMM.COURT-05) ROOM NO. 22. BLOCK-I. SOUTH-FAST DISTRICT. SAKET COURTS, NEW DELHI. NOTICE FOR PUBLICATION (ORDER 5. Rule 20 of the CPC.) CS (COMM) NO. 241/2023 M/S AKZO NOBEL INDIA LIMITED M/S HARSH PAINT CORPORATION & ORS M/S HARSH PAINT CORPORATION THROUGH MR. ANIL HARSH (PARTNER) C-567 (1449), STREET NO.7, WAZIR NAGAR, KOTLA KPUR, NEW DELHI-110003. MR. ANIL HARSH (PARTNER) M/S HARSH PAINT CORPORATION C-567, (1449) STREET NO.7, WAZIR NAGAR, KOTLA SO AT:-C-115, SHIVALIK, MALVIYA NAGAR, M/s MR. CHAMAN HARSH LAL (PARTNER)

purposes.

M/S MARSH PAINT CORPORATION C-567, (1449) STREET NO.7, WAZIR NAGAR, KOTLI MUBARAKPUR, NEW DELHI-110003. SO AT:-C-115, SHIVALIK, MALVIYA NAGAR, hereas Plaintiff has instituted that above Suit FOR COVERY against the defendants. You are hereby mmoned to appear in this Court in person or by a pleader n the 05 day of DECEMBER 2023, at 10:00 0' clock, the same, failing which the Suit will be disposed to

under my hand and the seal of the court, this 1 indant is informed to file WS within a period

District Judg 😰 अनुभाग अधिकारी, ढीआरटी–।।, दिर्ल्ल South-East, Saket, New Delh